SPACE INCUBATRICS TECHNOLOGIES LIMITED

Regd. Office: Pawan Puri, Muradnagar, Ghaziabad-201206 (U.P.) CIN: L17100UP2016PLC084473

E-mail- spaceincubatrics@gmail.com, Web: www.spaceincubatrics.com, Phone: 01232-261288

Date: 17.05,2021

The Manager Department of Corporate Relationship Bombay Stock Exchange Limited PhirozeJeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbaj- 400 001

> Scrip code-541890 Scrip ID- SPACEINCUBA

SUB: Newspaper Cuttings of Notice for Board Meeting to be held on 25.05.2021

Dear Sir.

As required under Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copy of newspaper cutting of Notice of Meeting of Board of Directors to consider and take on record the Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Year ended on 31st March, 2021 published in:

A. Financial Express dated 16.05.2021 (English Daily)

B. Jansatta dated 16.05.2021 (Hindi Daily)

Please take on record.

Thanking you,

Yours faithfully

CS TECH For Space Incubatrics Technologies Limited

Muradnagar

(Yogesh Kumar Garg)

Company Secretary & Compliance Officer

Membership No- F4738

Encl: as above

Sybly Industries Ltd.

CIN - L17111UP1988PLC009594 Regd. Office: Pawan Puri, Muradnagar, Ghaziabad (U.P.) -201206

Website: www.sybly.com

Email: sybly@rediffmail.com, Ph: 01232-261521

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant

to Regulation 47 of the SEBI

Listing Obligations and Disclosure

Requirements) Regulations, 2015, a

meeting of the Board of Directors of the

Company will be held on Tuesday, the 25"

May, 2021 at its registered office to

consider and approve the Financial Results

for the quarter and year ended 31" March,

A copy of the said Notice

and the Financial Results

shall also be available at the

Company's website www.sybly.com

and the Website of the Stock Exchange

2021 among other things.



PUBLIC NOTICE Client Smt. Veena Sharma W/o Sh. Sushil Kumar Sharma R/o 30, Duplex Flats, Gur Mandi, Model Town, Delhi-110007, has Disowned Debarred her Son Vikas Sharma her Daughter-In-Law Quincy Kaur & her Grand Daughter Yashvi Sharma from all moveable / immovable properties and severed all relation due to their Misbehavior, Disobedience, Out of Control Nature and Hostile Nature. If anybody dealing with them, My client shall not be responsible for their acts / deeds in future.

Ashish Goel (Advocate) Ch. No. D-410, Lawyers Chambe Block, Karkardooma Court, Delhi

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

No.

Total Income from Operations

6 Paid up Equity Share Capital

12 Debt Service Coverage Ratio

13 Interest Service Coverage Ratio

9 Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt

11 Earnings Per Share (of Rs.10/- each)

websites of Stock Exchanges at www.bseindia.com.

7 Other Equity

10 Debt Equity Ratio

8 Net Worth

Basic:

Diluted :

Place: New Delhi

Notes:



SI.

कार्यालय वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल), निर्माण खण्ड-प्रथम उ०प्र० राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वितीय तल, जी०डी०ए० बिल्डिंग प्राइवेट बस स्टैण्ड कम्पाउण्ड, गाजियाबाद

CIN: U27209CT2018PLC008397

31.03.2021

107,605

(446,490)

(446,490)

(409,575)

(409,575)

100,000

(4.044)

(40.95)

(40.95)

0.00

0.00

(0.005)

(0.005)

figures in respect of full financial year and the published year to date figures upto the half years for the relevant financial year

ii) Debt service coverage ratio: Profit before depreciation, Net finance charges and Exception items/ (Net finance charges+

iii) Interest service coverage ratio: Profit before depreciation, Net finance charges and exceptional Items/ Net finance charges

v) The above is an extract of the detailed format of half yearly/annual financial results filed with the Stock Exchanges, BSE

Limited, under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI LODR

Regulations). The detailed information on the half yearly financial results including details required under the Regulation 52

(4) of SEBI LODR Regulations is available on the websites of the Stock Exchange at www.bseindia.com and the Company

Standalone

Audited

Year

ended

31.03.2021

(5.72)

(5.72)

(5.72)

(5.72)

31.82

11,605.00

11,636.82

1,178.46

0.10

(0.01)

(0.01)

0.99

0.99

Year

31.03.2020

1,397.55 12,875.12

ended

(6.76)

(6.76)

(10.47)

(10.47)

11,605.00

373.96

2.12

(0.01)

(0.01)

1.00

1.00

11,978.96

25,430.04

Notes: i) The figures for the half years ended March 31, 2021 and March 31, 2020 are the balancing figures between the audited

Long term borrowings scheduled principal repayments (excluding prepayments) during the period).

Six Months Six Months

31.03.2021

62.18

(10.38)

(10.38)

(10.38)

(10.38)

(0.01)

(0.01)

1 The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 15th May, 2021

2 The above is an extract of the detailed format of Half-Yearly and Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI

3 For the items referred in sub-clauses (a), (b), (d) and (e) of the Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,

2015, the pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange(s) (BSE) and can be accessed on the URL (www.bseindia.com).

(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Half Yearly and Annual Financial Results are available on the

11,605.00

ended

31.03.2020

3,162.74

(23.60)

(23.60)

(12.96)

(12.96)

11,605.00

(0.01)

(0.01)

Half year ended

[refer note (i) below]

31.03.2020

12,826

(347,825)

(347,825)

(324, 104)

(324, 104)

100,000

(11.392)

(32.41)

(32.41)

0.00

0.00

(0.028)

(0.028)

Statement of Standalone Financial Results for the Half year and year ended 31st March, 2021

अल्पकालीन निविदा सूचना

एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि युपीसीडा के औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद साइट-4 (१७०७, १८ एकड) गाजियाबाद का डोन सर्वे का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। उक्त आँद्योगिक क्षेत्र के डोन सर्वे के स्कोप आफ वर्क के अनसार बिल ऑफ क्वांटिटी दिनांक 21.05.2021 तक कार्यालय वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल), निर्माण खण्ड-प्रथम, गाजियाबाद वे कार्यालय से प्राप्त की सकती है। उक्त कार्य के लिये पंजीकत / अधिकत अनभवी इच्छव फर्मों द्वारा समस्त करों सहित दरें अंकित करके दिनांक 22.05.2021 को साथ 5:00 बजे तक सील बन्द लिफाफे में निविदायें आमंत्रित की जाती है। अन्य जानकारी हेत् किसी भी कार्य दिवस में उपरोक्त कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है। वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल)

Particulars

Net Profit / (Loss) for the year (before Tax, Exceptional

Total Income from Operations

and/or Extraordinary items)

Paid up Equity Share Capital

9 Paid up Debt Capital / Outsatnding Debt

10 Outstanding Redeemable Preference Shares

Net worth

11 Debt Equity Ratio

12 Earnings per share

Basic (Rs.)

Diluted (Rs.)

Date: May 14, 2021

Particulars

2 Net Profit for the Period (before Tax and Exceptional Items)

3 Net Profit for the Period before Tax (after Exceptional Items)

5 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for

the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)

4 Net Profit for the Period after Tax (after Exceptional Items)

13 Capital Redemption Reserve

15 Debt Service Coverage Ratio

14 Debenture Redemption Reserve

16 Interest Service Coverage Ratio

Net Profit / (Loss) for the year before tax

Net Profit / (Loss) for the year after tax

(after Exceptional and/or Extraordinary items)

(after Exceptional and/or Extraordinary items)

Total Comprehensive Income/ (Loss) for the year

Other Equity (excluding Revaluation Reserves)

(after tax) and other comprehensive income (after tax)

which were subjected to limited review by the statutory auditors.

at https://www.jsw.in/groups/creixent-special-steels-limited.

HANSDEEP INDUSTRIES & TRADING COMPANY LIMITED

CIN: U74899DL1993PLC054817

Regd. Office: 3, Link House, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

Statement of Audited Standalone & Consolidated Financial Results for the half year and year ended 31st March, 2021

iv) Debt-equity ratio: Total borrowings/ Networth

The Federal Bank Ltd. FEDERAL BANK B-247, Upper Ground Floor, Super Ma Your Perfect Banking Partner Commercial Complex-1, DLF Phase IV, Gurgaon Haryana, 122 002

Regd. Office. Alwaye, Kerala NOTICE FOR PRIVATE SALE OF GOLD

Notice is hereby given for the information of all concerned that Gold Ornaments pledged in the following Gold loan accounts, with the under mentioned branch of the Bank, which are overdue for redemption and which have not been regularised so far in spite of repeated notices, will be put for sale in the branch on or after 31/05/2021 as shown below: ACCOUNT NUMBER BRANCH/VENUE | NAME &

: 15286100012374 Neeraj Kumar Pandey B-247, U.G.F., Super Mart Vinod Kumar Sachdeva Commercial Complex-1. DLF Vinod Kumar Sachdeva Vinod Kumar Sachdeva Gurgaon, Haryana, 122 002

: 15286200001293 : 15286200001319 : 15286200001327 Place: Gurgaon Date: 16.05.2021 Branch Manager, (The Federal Bank Ltd.)

W CyberMedia CYBER MEDIA (INDIA) LIMITED

Regd. Office: D-74, Panchsheel Enclave, New Delhi-110017. Tel.: 011-26491320 Corp. Office: Cyber House, B-35, Sector-32, Gurugram-122001, Haryana. CIN: L92114DL1982PLC014334 Tel.: 0124-4822 222

Email: investorcare@cybermedia.co.in, Website: www.cybermedia.co.in Notice regarding postponement of the Board Meeting

With reference to Notice dated May 08, 2021, regarding the date of the Board Meeting of the Company which was scheduled to be held on May 18, 2021, inter alia, to consider and approve Audited Financial Results of the Company for the guarter and year ended March 31, 2021, this is to inform that the said meeting has been postponed, because there is a complete lock down in Delhi NCR and some of the accounts staffs families are suffering from Covid-19 pandemic. The new date of the meeting of the Board of Directors for the aforesaid purpose shall be intimated in due course in accordance with Regulation 29 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The said information is also available on the Company's website at www.cybermedia.co.in

and the websites of stock exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com. By Order of the Board

Place: Gurugram Date: May 15, 2021

Anoop Singh Company Secretary M. No. F8264

BSE: www.bseindia.com. By the order of the Board For Sybly Industries Ltd.

Place: Muradnagar (Sagar Agarwal) Date: 15.05.2021 Company Secretary

SPACE INCUBATRICS TECHNOLOGIES LIMITED CIN: L17100UP2016PLC084473 Regd. Office: Pawan Puri, Muradnagar, Distt. Ghaziabad Uttar Pradesh-201206 (India) -mail: spaceincubatrics@gmail.com www.spaceincubatrics.com Phone: 01232-261288

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, the 25[™] May, 2021 at its registered office to consider and approve the Financial Results for the quarter and year ended 31"March, 2021 among other things. A copy of the said Notice and the Financial Results shall also be available at the Company's website www.spaceincubatrics.com and the Website of the Stock Exchange BSE:

By the order of the Board For Space Incubatrics Technologies Limited Place: Muradnagar (Yogesh Kumar Garg) Date: 15.05.2021 Company Secretary

www.bseindia.com.

NA

NA

NA

NA

0.16

0.35

6.70

SURAJ INDUSTRIES LTD

CIN: L26943HP1992PLC016791
Email id- secretarial@surajindustries.org
website-www.surajindustries.org
Regd. Office: Plot No. 2, Phase III, Sansarpur
Terrace, District Kangra, Himachal Pradesh-173212
Corporate Office: F-32/3, First Floor,
Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020
Contact No: 01970-256414 NOTICE Notice is hereby given that pursuant

to Regulation 29 read with Regulation 33 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the meeting of the Board of Directors of M/s Suraj Industries Ltd will be held on Friday. May 21, 2021 at 01:00 PM at F-32/3. First Floor, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020 inter alia, to consider and approve the Audited Financial Results for the year ended March 31, 2021. For further information visit our Company's website i.e. www.surajindustries.org or stock exchange website i.e.

www.bseindia.com För Suraj Industries Ltd. Bhanumathy Ramachandran Place: New Delhi

(Company Secretary) Date: 14.05.2021 indianexpress.com



detailed analysis. ♦ The Indian EXPRESS

(₹ in Lakhs)

OBEROI REALTY LIMITED

Registered Office: Commerz, 3rd Floor, International Business Park, Oberoi Garden City, Off Western Express Highway, Goregaon (E), Mumbai - 400063, India CIN: L45200MH1998PLC114818, E-mail ID: corporate@oberoirealty.com Website: www.oberoirealty.com, Tel: +91 22 6677 3333, Fax: +91 22 6677 3334

EXTRACT OF AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2021 (Rs. in Lakh, except per share data) SI. Year ended **Particulars** No. 31/03/2021 31/03/2020 Audited Audited Revenue from Operations 2.05.258 2.23.763 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or 92,117 96.298 Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or 92,117 96,298 Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax and Share of Profit / (Loss) of joint 92,442 96,889 ventures (net) (after Exceptional and / or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the 74,154 68,919 period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)) Paid up Equity Share Capital 36,360 36,360 9.00,554 Other equity 8,26,588 9.36.914 8,62,948 8 Net worth Paid up Debt Capital / Outstanding Debt 1,53,380 Earnings Per Share (EPS)* (Face value of Rs.10 each) 1. Basic 18.96 20.33 2. Diluted 20.33 18.96

*Not annualised, except year end Basic and Diluted EPS

Debenture Redemption Reserve

Debt service coverage ratio

14 Interest service coverage ratio

Debt equity ratio

13

- 1 The above is an extract of the detailed format of Audited Consolidated Financial Results of the Company for the year ended March 31, 2021 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and 52 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as modified. The full format of the Audited Consolidated and Standalone Financial Results of the Company for the year ended March 31, 2021 are available on the Company's website at www.oberoirealty.com and also on the stock exchange websites i.e., on BSE Limited at www.bseindia.com and on The National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com.
- For the items referred in sub-clauses (a), (b), (d), and (e) of the Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the pertinent disclosures have been made to the Stock Exchanges as mentioned in note 1 above, and can be accessed on their website stated above.
- 3 The Company has opted to report consolidated financial results pursuant to regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations) and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The standalone financial results are summarised below:

Particulars	Year ended		
	31/03/2021 Audited	31/03/2020 Audited	
			Total revenue (including other income)
Profit before tax	50,851	41,891	
Profit after tax	41,662	31,484	

For and on behalf of the Board Vikas Oberoi Chairman & Managing Director

Mumbai, May 14, 2021 Attention Members-registration of email id address

In terms of the circulars issued from time to time by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), and Securities and Exchange Board of India (SEBI), Oberoi Realty Limited will be sending its Annual Report for FY2020-21, and the Notice of 23rd Annual General Meeting to be held in 2021 only by email to the members whose e-mail addresses are registered with the Company or with the Depository.

Members holding shares in physical form and who have not yet registered their e-mail addresses for receiving documents in electronic form are requested to register their e-mail addresses by sending following details on cs@oberoirealty.com: (A) their folio number, (B) their email id, and (C) scanned copy of their (i) share certificate (front & back), (ii) PAN card (self attested), (iii) Aadhar Card (self attested). Members holding shares in demat mode are requested to update their email address with their depository participant.

STANDALONE

Date: 15th May, 2021 The Federal Bank Ltd. Ground Floor, Village Kair

FEDERAL BANK Your Perfect Banking Partner

Najafgarh, New Delhi-110043 Regd. Office. Alwaye, Kerala NOTICE FOR PRIVATE SALE OF GOLD Notice is hereby given for the information of all concerned that Gold Ornaments pledged in the ollowing Gold loan accounts, with the under mentioned branch of the Bank, which are overdue for edemption and which have not been regularised so far in spite of repeated notices, will be put for sale in the branch on or after 31/05/2021 as shown below:

BRANCH/VENUE | NAME & ACCOUNT NUMBER The Federal Bank Ltd. NAVEEN KUMAR SEHRAWAT Ground Floor, Village Kair A/c. No. 22756400004777 New Delhi-110043 Place: New Delhi Date: 16.05.2021 Branch Manager, (The Federal Bank Ltd.)

Place: Mohali

Date: 14/05/2021

S.R. Industries Limited CIN: L29246PB1989PLC009531 Regd. Off.: E-217, Industrial Area, Phase 8B, Mohall, Purjab - 160071 Website: www.arfootwears.com Email: info@arfootwears.com Tel: +91 172 4602888

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS FOR ADJOURNED EXTRA-ORDINARYGENERAL MEETING (EGM)

This is to inform that an Extra-Ordinary General Meeting (EGM) of the Company was held on Friday, 14 th May, 2021 at 02:30 p.m. at the Registered Office of the Company. Due to absence of requisite quorum, as required under the provisions under Section 103 of the Companies Act, 2013, the meeting stands adjourned to the same time and same place in the next week i.e., Friday, 21 st May, 2021 at 02:30 p.m. at the Registered Office of the Company to transact the business as specified in the Original Notice of EGM dated 20th April, 2021.

By order of the Board For S R INDUSTRIES LIMITED (Amit Mahajan) CFO (DIN: 00038593)

JINDAL CAPITAL LTD. REGD. OFFICE: 79-A. KAMLA NAGAR, DELHI - 110007 CIN: L74899DL1994PLC059720 Website: www.jindalcapital.in E-mail: info@jindalcapital.in Extract of the Standalone Audited Results for the Quarter and year ended March 31, 2021 (Rs. In Lakhs)

S. No.	Particulars	Qtr ended 31.03.21 (audited)	Year to date 31.03.21 (audited)	Qtr ended 31.03.20 (audited)
1	Total Income from Operations (net)	143.93	608.93	228.82
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary item)	12.22	63,46	-5.01
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary item)	12.22	63.46	-5.01
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary item)	-10.81	40.43	-4.57
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising profiti(loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)	-10.81	40.43	-4.57
6	Equity Share Capital	720.81	720.81	720.81
7	Reserves (excluding Revaluation Reserves as shown in the Balance Sheet of previous year)	69.69	69.69	19.15
8	Earning Per Share (of Rs 10/- each) (a) Basic (b) Diluted	-0.15 -0.15	0.56 0.56	-0.06 -0.06

filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the website of Bombay Stock Exchange (www.bseindia.com) and website of the Company (www.jindalcapital.in). The above result have been reviewed by the audit committee and approved by thr Board

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results

at their meeting held on 15th May, 2021. For & On behalf of Board of Directors

Pawan Kumar Jindal Place: Delhi Director Date: May 15, 2021 DIN: 00524690

KIRLOSKAR INDUSTRIES LIMITED

A Kirloskar Group Company CIN No.: L70100PN1978PLC088972

Read, Office: Office No. 801, 8th Floor, Cello Platina. Fergusson College Road, Shivajinagar, Pune 411 005 (India)



Enriching Lives

CONSOLIDATED

EXTRACT OF STANDALONE & CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31 MARCH 2021

Quarter Ended Year Ended Quarter Ended Year Ended Year Ended Year Ended 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 Audited Audited Audited Audited Audited Audited 2,247 5,811 8,609 75,810 2,08,227 1,93,005 17,087 1,511 3,245 6,492 37,773 19,991 1,511 3,245 6,492 17,087 37,773 19,991 13,373 15,063 1,355 2,719 5,945 31,145 54,217 26,946 (39,639)26,953 54,131 (39,764)28,301 56,936 (33,694)40,326 85,276 (24,701)971 971 971 971 971 13.96 98.77 28.01 61.23 69.51 168.70

Notes:

Place: Pune

Date: 15 May 2021

Sr.

No.

2

3

5

6

Total Income

Extraordinary items)

(not annualised):

Basic

Diluted

Total Other Comprehensive Income

Paid-up Equity Share Capital

Comprehensive Income (after tax) for the period]

1 The above results are reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in their respective meetings held on 15 May 2021 and subjected to audit carried out by the Statutory Auditors of the Company.

13.50

2 The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Financial Results are available on the Company's and Stock Exchange websites. (www.kil.net.in, www.bseindia.com and www.nseindia.com).

For KIRLOSKAR INDUSTRIES LIMITED

163.99

Atul Kirloskar Chairman DIN 00007387

98.68

"Mark bearing word 'Kirloskar' in any form as a suffix or prefix is owned by Kirloskar Proprietary Limited and Kirloskar Industries Limited is the Permitted User"

Tel: +91 20 2970 4374
 Fax: +91 20 2970 4374

· Email: investorrelations@kirloskar.com · Website: www.kil.net.in

financialem.epa



The Federal Bank Ltd. Phase IV. Gurgaon Harvana.

(Rupees in thousand)

31.03.2020

Audited

12,826

(671,556)

(436,868)

1,863,000

(11.392)

(62.53)

(62.53)

(0.020)

(0.020)

Rs. Lakhs

12,875.12

(6.76)

(6.76)

(10.47)

(10.47)

366.45

2.12

(0.01)

(0.01)

1.00

1.00

11,605.00

11,971.45

25,430.04

Consolidated

Year Ended

31.03.2021 31.03.2020

Audited

1,409.21

1.88

1.88

(0.10)

(0.10)

29.94

11,605.00

11,634.94

1,178.46

0.10

(0.01)

(0.01)

1.01

1.01

WTD, CFO and Company Secretary

(Bhawna Rustagi)

Particulars

Net Profit (+)/ Loss (-) for the period (Before tax, Exceptional and/ or extraordinary

Net Profit (+)/ Loss (-) for the period before tax (after Exceptional and/or

Net Profit(+)/ Loss(-) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary

Total Comprehensive Income [Comprising Profit (after tax) and Other

Earnings per share (for continuing and discontinuing operations) (of ₹10/- each)

0.00

0.00

Year Ended

31.03.2021

Audited

145,936

(877, 236)

(1,235,496)

1,863,000

(4.044)

(79.86)

(79.86)

0.00

0.00

(0.007)

(0.007)

For Creixent Special Steels Limited

Nikhil Gahrotra

Director

DIN:01277756

Creixent Special Steels Limited Registered Office: QR No. 50-51, Park Avenue Colony, Jindal Road, Dhimrapur, Raigarh 496001

> (877, 236)(671,556)(798,628)(625.334)(798, 628)(625, 334)100,000 100,000 (536,868)(1,335,496)

OC **OBEROI**



27.30

New Delhi

61.23

66.77

क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

, Yogesh S/o Harish R/o J-4/95- D 4th Floor Malviya Nagar Extension Delhi-110017, have changed my name to Yogesh Dobriyal.

, Shiney Abraham , W/O Benjamin George R/o 8-Mohinideep Retreat, Snehnagar, Hoshangabad Road, Misrod PO, Bhopal, Madhya Pradesh- 462026. have changed my name and shall hereafter be Known as Shiney Benjamin 0070740756-1

T Lalu Ram S/o Dhan Pal R/o 103, Jatav Pura, Holi Chauk, Bareilly, UP-243003, have changed my name to Suraj 0070740746-1

I, Mangesh Kumar Dwivedi S/O Ganga Sagar Dwivedi, R/o House No- 6, Baree Dubey, Mirzapur, Uttar Pradesh-231303, have changed my name and shall hereafter be Known as Mangesh Kumar 0070740754-1 Dubey.

I, Mainuddin S/O Mohiddin, R/o Mundehra, Ambedkar Nagar, Uttar Pardesh-224125 have changed my name and shall hereafter be Known as Mainuddin Shekh.

0070740745-1

l, Gagandeep Alias Gagandeep Makkar Alias Gagan Deep Makkar S/O Gurmit Singh Makkar, R/o Flat No- 403, Plot No- 3-B, Arihant Sidharth CGHS LTD, Sec- 11, Dwarka Sec- 6, Delhi- 110075, have changed my name and shall hereafter be Known as Gagandeep Singh Makkar.

0070740761-1

I, Devraj Narayan Swami S/O Narayan Mahadev Swami, R/o B/102 Triveni Apartments CHS Ltd. Plot No- 157/160. Kharghar, Raigarh, Maharashtra- 410210, have changed my name and shall hereafter be Known as Devraj

0070740747-1

| Savneet Sabharwal D/o Jatinder Singh Sabharwal and W/o Jasdeep Singh Sidhu R/o Near Punjab National Bank, GT Road, Mandi, Gurdaspur-143521, Punjab, have changed my name to Savneet Kaur 0070740755-1

Narayan Naidu

Ram Bahadur Thapa S/o Hira Bahadur Chetry R/o Bhimpra Balijan, Boginadi, Bhimpara Balijan, Lakhimpur, Assam-787032, have changed my name to Padma Bahadur Chetry 0070740757-1

Kishor Ali S/o Mehnga Ram R/o Village Sonspur, PO Badla, Dasuya, Hoshiarpur, Dasuya, Punjab-144205, have changed my name to Kishori Lal and I have changed only my name not my Religion

Chandan Kumar S/o Krishna Choudhary R/o Khorampur, Hilsa, Nalanda, Bihar-801302 have changed my name to Chandan Choudhary

I, Vicky Rajdev Sonkar S/O

0070740762-1

Rajdev, R/o Room No- 04, A1/34, Sec-21, Tubhe, Navi Mumbai, Thane, Maharashtra- 400703, have changed my name and shall hereafter be Known as Vikraj Rajdev Sonkar. 0070740736-1

I, Sharda Panjwani D/O Hargovind Panjwani, R/o Lachhumal Marg. Santkawarram Ward, Sagar, Madhya Pradesh- 470002, have changed my name and shall hereafter be Known as Shravya Panjwani

0070740742-1

I. Sandesh Shankarrao Hebbare Alias Sandesh S Hebbare Alias Sandesh Hebbare S/O Shankar Hebbare, R/o 103, Naga Masjid, Ponda- Goa, Curti, Goa- 403401, have changed my name and shall hereafter be Known as Sandesh Hajare.

0070740740-1

I, Poonam Ahirwar D/O B.L. Ahirwar, R/o Ashok Nagar, Guna, Madhya Pradesh-473331 . have changed my name and shall hereafter be Known as Jennyfer I Ahirwar and I have changed only my name not my Religion.

I, Raghvendra Pratap Singh

0070740738-1

S/O Chandra Bhan Singh, R/o Ticket Hatti, Kasauli, Garkhal (713), Solan, Himachal Pradesh- 173201, declare that Name of Mine & My Father and My Mother has been wrongly written as Raghvender Pratap Singh & Chander Bhan Singh and Chander Rekha Singh in my 10th Class Certificate No-229993. The actual name of Mine & My Father and My Mother are Raghvendra Pratap Singh & Chandra Bhan Singh and Chandra Rekha Singh, which may be amended accordingly.

0070740743-1

I, No.14633605P, BHM, SAN-JAYA KUMAR MOHANTY S/o residing at Village-Sankhua, P.O-Khantapara, Tehsil-Soro, Distt.-Balasore, Odisha-756043 have changed my daughter's MOHANTY (DOB-01.03.2002) to PREETI LATA MOHANTY (DOB-Notary Advocate-Dr. Karamjit

0070740770-1 I, Nikhil S/O Bhavnesh Kumar, R/o H. No-152/9, Birbal Street, Shiv Chowk, Fatehabad, Haryana- 125050, declare that Name of My Father and My Mother has been wrongly written as Bhavnesh Paruthi and Saroj Paruthi in my 10th Class Certificate No- 1437200 and 12th Class Certificate No-0526600, that the name of my father and my mother has been wrongly written as Bhavnesh and Saroj in My Birth Certificate No- 1201. The actual name of My Father and My Mother are Bhavnesh

0070740735-1

I, Garnepudi Balaraju S/O David, R/o 1/27A, Vallalar St. VTC/PO- Padur, Sub Dist.-Chengalpattu, Dist-Kancheepuram, Tamil Nadu-603103, I have changed the name of my minor daughter Garnepudi Bushra Fathima aged about 13 Years and She shall hereafter be known as Garnepudi Akshitha

0070740739-1

I, D J Laxmi Sathyanarayana W/O C P Sathyanarayana R/o 4-4-953/P/42, Paparayudu Nagar Kukatpally, Hyderabad, Telangana-500072 . have changed my name and shall hereafter be Known as CS Laxmi Sathyanarayana

0070740744-1

I, ANIMA MOHANTY Spouse of No.14633605P, BHM, SANJAYA 14/05/2021, before Notary Advocate-Dr. Karamjit Singh, Regd.No.-803, Delhi.

I Ranjna D/o Gurmeet Singh and W/o Ramandeep Singh R/o Village Tajowal, Post Office Hukran, Hoshiarpur, Punjab-146001, have changed my name to Ranjna Kaur

I, Momi Mondal D/O Biswanath Mondal, R/o Jujarsaha, Howrah, West Bengal-711302, have changed my name and shall hereafter be Known as Moumi Mondal

Be it known to all through this public lotice that our clients Sh. Rajpal Singh, S/o Lakhmi Chand, and Smt. Nee Singh, W/o Rajpal Singh, both R/o I.No- O-47, Street No.-7 Phase --Shiv Vihar, Karawal Nagar, North Eas Delhi-110094, have severed all kinds o heir relationship and disowned and lisinherited their son namely M Sourav Kumar bearing Aadhar card umber 228088319121 and their daughter-in-law Miss. Nisha from their all movable and immovable properties sponsible for any of their acts, deeds and things in future in any manner. Rachna Jasaiwa

1114, Rohini Court, Delhi-85

PUBLIC NOTICE neral public is hereby informed that r nts SH. RAMESH KUMAR S/o Sh. JAMN sidents of H. NO. 175, Village Hirankudna, West Delhi, Delhi 110041 hav SH. Ramesh Kumar and their daughter-in-la sident of Village Hirankudna, West Delh ovable property and have severed their a heir control. Whoever deals with them in an nanner will be doing so at his own risk and m above named clients would not be response

> R.S. SHOKEEN (ADVOCATE) Ch. No. 401, Dwarka Courts Complex

'IMPORTANT' its contents. The Indian advertising in its newspapers recommend that readers

For All Advertisement Booking Call: 0120-6651214

देहरादून में कवक संक्रमण का एक और मामला

देहरादून, 15 मई (भाषा)।

देहरादुन के मैक्स अस्पताल में कोरोना विषाणु से स्वस्थ हुए एक बुजुर्ग के जानलेवा कवक संक्रमण से पीड़ित होने का पता चला है।

अस्पताल के अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि डॉक्टरों को इस हफ्ते की शुरुआत में 60 साल के मरीज की संक्रमित आंख निकालनी पड़ी। उन्होंने बताया कि मरीज पिछले महीने कोविड-19 से उबरा था। अस्पताल में कोविड-19 से ठीक होने के बाद कवक से संक्रमित पाए जाने के तीन मामले आए हैं। पहले दो मामले इस साल जनवरी और फरवरी में आए थे। उन्होंने बताया कि सभी तीन मरीजों को सर्जरी करानी पड़ी थी।

अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक राहुल प्रसाद ने कहा कि मधुमेह और कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र वाले लोगों के संक्रमण की चपेट में आने का खतरा अधिक है। यह संक्रमण सबसे पहले आंखों पर असर डालता है और अगर यह शरीर के अन्य हिस्सों तक फैल जाता है तो इससे जान भी जा सकती है। प्रसाद ने कहा कि कोविड-19 के जिन मरीजों को अन्य बीमारियां जैसे कि मधुमेह है, उन्हें ठीक होने के बाद भी बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है।

गंगोत्री मंदिर के कपाट खुले, श्रद्धालुओं को आने की अनुमति नहीं उत्तरकाशी, 15 मई (भाषा)।

कोविड-19 के बढ़ते कहर के बीच उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री मंदिर के कपाट एक सादे समारोह में शनिवार को

खोल दिए गए। इस समारोह में मंदिर के पुजारियों लोग शामिल हए।

गंगोत्री मंदिर के पुजारी रवींद्र सेमवाल ने बताया कि अक्षय तृतीया के अवसर पर सबह 7:31 बजे वैदिक मंत्रोच्चार के बीच और विशेष पूजा के साथ मंदिर के द्वार खोले गए। इस दौरान कोविड-19 संबंधी

और प्रशासन के कुछ लोगों समेत चुनिंदा सभी प्रोटोकॉल का पालन किया गया। साल गंगोत्री मंदिर समेत उत्तराखंड में प्रशासन व मंदिर समिति के चुनिंदा लोगों को इस समारोह में शामिल होने की अनुमित दी गई। उन्होंने बताया कि मंदिर के कपाट खुलने के बाद पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई।

चार धाम यात्रा रद्द कर दी गई है, लेकिन नियमित पूजा के लिए मंदिरों के कपाट खोल दिए गए हैं। यमुनोत्री के कपाट 14 मई को खोले गए थे। केदारनाथ के कपाट 17 मई और बदरीनाथ के कपाट वैश्विक महामारी के मद्देनजर इस 18 मई को खोले जाएंगे।

छह बार सांसद रहे रघुनंदन लाल भाटिया का निधन

अमृतसर, 15 मई (भाषा)।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अमृतसर से छह बार सांसद रहे रघुनंदन लाल भाटिया का बीमारी के कारण निधन हो गया है। वह 100 वर्ष के थे।

भाटिया के परिवार के सदस्यों ने शनिवार को बताया कि शक्रवार रात को यहां एक निजी अस्पताल में उनका निधन हो गया। रघुनंदन अमृतसर संसदीय सीट से सबसे पहले 1972 में लोकसभा सांसद बने थे और इसके बाद इसी सीट से 1980, 1985, 1992, 1996 और 1999 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते।

भाटिया 2004 से 2008 तक केरल के राज्यपाल भी रहे। वह 2008 से 2009 तक बिहार के राज्यपाल भी रहे। उन्होंने 1992 में विदेश राज्यमंत्री के तौर पर भी काम किया। कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य के तौर पर वह पार्टी में पंजाब इकाई के अध्यक्ष व महासचिव समेत विभिन्न पदों पर रहे।

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भाटिया के निधन पर शोक जताया। उन्होंने ट्वीट किया, 'भाटिया जी के निधन से दुखी हूं। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।' पंजाब कांग्रेस के नेता और विधायक राज कुमार वेरका ने शोक जताते हुए कहा कि भाटिया भारतीय राजनीति के 'भीष्म पितामह'थे।

योगी के मलेरकोटला ट्वीट पर अमरिंदर का सख्त एतराज

चंडीगढ, 15 मई (भाषा)।

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने मलेरकोटला को पंजाब का 23वां जिला घोषित किए जाने पर उत्तर प्रदेश के अपने समकक्ष योगी आदित्यनाथ के 'भड़काऊ' ट्वीट की आलोचना करते हुए इसे शांतिपूर्ण राज्य में 'सांप्रदायिक घुणा' उत्पन्न करने का प्रयास बताया।

सिंह ने कहा कि आदित्यनाथ को उनके राज्य के मामलों से दूर रहना चाहिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुकाबले पंजाब के हालात बहुत बेहतर हैं। आदित्यनाथ ने ट्वीट किया था, 'मत और मजहब के आधार पर किसी प्रकार का विभेद भारत के संविधान की मूल भावना के विपरीत है। मलेरकोटला (पंजाब) का गठन किया जाना कांग्रेस की विभाजनकारी नीति का परिचायक है।' सिंह ने ईद के मौके पर पंजाब के एकमात्र मुसलिम बहुल कस्बे मलेरकोटला को राज्य का 23वां जिला घोषित किया था, जिसके बाद आदित्यनाथ ने यह ट्वीट किया। पंजाब के मुख्यमंत्री ने आदित्यनाथ के ट्वीट पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए पूछा, 'पंजाब के आचार-व्यवहार या मलेरकोटला के इतिहास के बारे में वह (योगी आदित्यनाथ) क्या जानते हैं? जिसके सिख धर्म और उसके गुरुओं के साथ संबंध



पंजाब के एकमात्र मुसलिम बहुल करबे मलेरकोटला को राज्य का 23वां जिला घोषित करने पर दोनों नेताओं के बीच छिड़ी जुबानी



के बारे में हर पंजाबी वाकिफ है। भारतीय संविधान के बारे में वह क्या जानते हैं, जिसका उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार दिन-प्रतिदिन बेशर्मी के साथ अपमान कर रही है।' सिंह ने कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार और भाजपा के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए ऐसी टिप्पणी अवांछित और अनुचित होने के साथ-साथ हास्यास्पद भी लगती है। सिंह ने यहां एक बयान में कहा, 'पूरी दुनिया भाजपा की सांप्रदायिक विभाजन की नीतियों से वाकिफ है। विशेषकर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार में।'

गुलाम नबी ने मोदी को लिखा पत्र,

टीका आपूर्ति पर दिए सुझाव

कोरोना संक्रमण के कारण फैसला

EXPRESS EDUCATION

ANTHRO **Target 2021-22**

Live Interaction with Vaid Sir

to Discuss the Strategy for Preparing Anthropology in

YOUTUBE SEMINAR ON MAY 16 AT 4.00 PM Please Visit YouTube Channel
youtube.com\c\vaidsicsdelhi
& website: www.vaidsics.com

Online Course's Admissions to Resume Soon

Contact for Advt. Booking: M/s Friends Publicity Service Ph.: 23276901, 23282028 (M): 9212008155, 9212665841

31.05.2021 को या उसके उपरान्त शाखा द्वारा विकी हेत् रखे जाएंगे:

31.05.2021 को या उसके उपरान्त शाखा द्वारा विकी हेत् रखे जाएंगे:

नाम और

वि फेडरल बैंक लि. नीरज कुमार पाण्डेय

बी-247, ऊपरी भूतल, सुपर मार्ट विनोद कुमार सचदेवा

कॉम्प्रियंत्र कॉम्पर्तक्स-1, डीएलए६ 4, विनोद कुमार सचदेवा

नाम और

विनोद कुमार सचदेवा

दि फोडरल बैंक लि. प्रेडरल बेंक भनल, गाँव कैर, नजफगढ आपका सम्पूर्ण बैंकिंग भागीवार

सोने की निजी बिक्री के लिए सूचना

सभी सम्बन्धितों की जानकारी हेतु एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि बैंक की नीचे वर्णित शाखाओं में स्वर्ण ऋण खातों में निम्नलिखित स्वर्ण आभूषण गिरवी रखे गए थे, जो छुड़वाने के लिए अतिदेय हो चुके हैं और बार्-बार सूचना देने पर नियमित नूहीं किए गए हैं, अ्तः निम्नलिखित दर्शांचे अनुसार

तनावग्रस्त सम्पत्ति वसूली शाखा-।।, तीसरी एवं चौथ तल, स्टेट बैंक हाउस

18/4, आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिलली-110005

टेलि 011.28752163 फैक्सः 28755674 शाखा ई-मेलः sbi.51521@sbi.co.in

नीलामी कि तिथि 17.05.2021-रदद

सर्वसाधारण को सचित किया जाता है कि कर्जदार का नाम मैसर्स जय गुरूदेव

कोल्ड स्टोरेज (क्रम संख्या 1 एवं 2) जो दिनांक 16.04.2021 को 'जनसत्ता' और

'फाइनेंनसियल एक्सप्रेस' समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था. जिसका ई—नीलामी

OSBI

आईटी विशेष परियोजनाये-1, सी विंग, 3री मंज़िल, स्टेट बैंक ग्लोबल आईटी सेंटर,

बालाजी भवन, सेक्टर-11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई - 400 614.

शुद्धिपत्र

एनईटीसी फास्टैग एप्लिकेशन (आरएफपी नं. एसबीआई/जीआईटीसी/स्पेशल प्रोजेक्ट-1,

2021/2022/762 दिनांक: 28/04/2021) के लिए अनेक समाधान (उत्पाद/रखरखाव/

आधार) देने के लिए विक्रेताओं की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव के लिए जारी किए गए प्रस्ताव हेतु

निवेदन के संबंध में अखबारों में 30,04.2021 को प्रकाशित विज्ञापन अपने कुछ

नियमों/मानकों में संशोधन कर रहा है, कृपया विस्तृत शुद्धिपत्र के लिए बैंक की

वेबसाइट https://bank.sbi/web/sbi-in-the-news/procurement-news या

https://etender.sbi/SBI/ पर विज़िट करें. इस संबंध में भविष्य में होने वाली

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 (1) (a) of SEBI (Listing Obligations

and Disclosure Requirements) Regulations 2015, notice is hereby given that a meeting

of the Board of Directors of the company is scheduled to be held on Friday, 21" May, 2021

at the registered office of the company at 10/5, I. T. Park, Nagpur - 440022 at 12:00 Noon

to consider and approve, inter alia, the Standalone and Consolidated Audited Financial

Results / Statement of the Company for the quarter and Financial Year ended as on

The information is also available on the website of the company at www.ceinsys.com and

की तिथि 17.05.2021 है जो कि रदद कर दिया गया है।

घोषणाओं, यदि हो, के लिए कृपया वेबसाइट देखते रहें.

स्थान: नवी मुंबई |दिनांक: 16.05.2021

31" March, 2021 along with other agenda.

website of BSE Ltd. at www.bseindia.com.

Date: 13" May, 2021

Place: Nagpur

Ceinsys Tech Ltd

शाखा/स्थान

स्थानः गृहगाँव विनांकः 16.05.2021

नर्ड दिल्ली-110043

शाखा/स्थान

दि फेडरल बैंक लि.

भूतल, गाँव केर, नज़फगढ

स्थान: नई दिल्ली दिनांक: 16.05.2021

तिथिः 15.05.2021 स्थानः नई दिल्ली

नई दिल्ली-110043

भूतल, गाँव कैर, नजफगढ

गृहगीय. हरियाणा-122002

दि फेडरल बैंक लि. एरेडरल, देवर

वी-247. ऊपरी भूतल, सपर मार्ट कॉम्बियल आपका सम्पूर्ण बैंकिंग भागीदार

कॉम्पलेक्स-1, डीएलएफ 4, गुड्गॉव, हरियाणा-122002 चंजी. कार्यालयः अलवाये, केरल

सभी सम्बन्धितों की जानकारी हेतु एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि बैंक की नीचे वर्णित शाखाओं में स्वर्ण ऋण खातों में निम्नलिखित स्वर्ण आभूषण गिरवी रखे गए थे, जो छुड़वाने के लिए अतिदेव हो चुके हैं और वार्-बार सूचना देने पर निवमित नूहीं किए गए हैं, अ़्तः निम्नलिखित दर्शाये अनुसार

सोने की निजी बिक्री के लिए सूचना

खाता संख्या

शाखा प्रबंधक, (दि फेडरल बैंक लि.)

पंजी. कार्यालयः अलवाये, केरल

खाता संख्या

शाखा प्रबंधक, (दि फेटरल वैंक लि.)

प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

उप महाप्रबंधक

(आईटी विशेष परियोजनाये-1

For Ceinsys Tech Limited

Company Secretary & Compliance Officer

Saurabh Somani

Registered Office: 10/5, I.T. Park, Nagpur - 440022 MH, India. CIN: L72300MH1998PLC114790

E-mail: cs@ ceinsys.com, Website: www.ceinsys.com Tel No.: 91 712 6782800

बक

नवीन कुमार सेहरावत

खाता सं. 22756400004777

15286100012374

15286200001293

15286200001319

: 15286200001327

'आधार न होने पर टीके से वंचित नहीं किया जा सकता

नई दिल्ली, 15 मई (भाषा)।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (युआइडीएआइ) ने शनिवार को कहा कि किसी भी बिना आधार कार्ड वाले व्यक्ति को टीका लगाने,



दवा देने, अस्पताल में भर्ती करने या उपचार उपलब्ध कराने से नहीं रोका जा सकता। यूआइडीएआइ ने एक बयान

में कहा कि आधार के मामले में भली-भांति स्थापित एक अपवाद है। इसका आधार की अनुपस्थिति में सेवा और लाभ प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए पालन किया जाना चाहिए। यूआइडीएआइ ने कहा कि यदि किसी नागरिक के पास किसी कारण से आधार कार्ड नहीं है तो आधार अधिनियम के तहत उसे सेवा प्रदान करने से इनकार नहीं किया जा सकता। दरअसल ऐसी खबरें हैं

पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस

नई दिल्ली, 15 मई (भाषा)।

के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर देश में कोविड-19 रोधी दवाओं का उत्पादन बढ़ाने संबंधी कुछ कदमों का सझाव दिया। पार्टी के अधिकारियों ने यहां बताया

कि आजाद ने अपने पत्र में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा और मजबूत करने के लिए भी सुझाव दिए। इस पत्र की एक प्रति केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को भी भेजी गई कि आधार कार्ड न होने की वजह से कई लोगों को अस्पताल में भर्ती है। कांग्रेस के अधिकारियों ने बताया कि पूर्व राज्यसभा सदस्य ने देश में टीका



लगाने वालों की संख्या बढाने की भी सिफारिश की। साथ ही उन्होंने देश में महामारी से निपटने के लिए टीकों की और अधिक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी सुझाव दिए। आजाद का राज्यसभा सदस्य के तौर पर कार्यकाल इस साल की शुरुआत में खत्म हुआ। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री को यह पत्र शनिवार सुबह लिखा गया।

उल्फा (आइ) ने संघर्षविराम का किया एलान

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 15 मई।

होने व अन्य आवश्यक सेवाओं से वंचित होना पड रहा है।

प्रतिबंधित युनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (इंडिपेंडेंट) ने असम में कोविड-19 के मौजदा हालात को देखते हुए तीन महीने के लिए एकतरफा संघर्ष विराम की घोषणा की।

उल्फा (आइ) के कमांडर-इन-चीफ परेश बरुआ ने मीडिया को ई-मेल किए गए

एक बयान में कहा कि संघर्ष विराम तत्काल प्रभावी होगा और संगठन इन तीन महीनों की अवधि के दौरान किसी भी है। महामारी की दूसरी लहर में बढ़ते अभियान से बचेगा।

हमने अगले तीन महीने तक सभी अभियान इससे 1984 लोगों की राज्य में अब तक को स्थगित करने का फैसला किया है,

अल्पकालीन निविदा सूचना

21.05.2021 तक कार्यालय वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल), निर्माण खण्ड-प्रथम, गाजियाबाद के

कार्यालय से प्राप्त की सकती है। उक्त कार्य के लिये पंजीकृत / अधिकृत अनुभवी इच्छुक

फर्मों द्वारा समस्त करों सहित दरें अंकित करके दिनांक 22.05.2021 को सायं 5:00 बजे तक

सील बन्द लिफाफे में निविदायें आमंत्रित की जाती है। अन्य जानकारी हेत् किसी भी कार्य

दिवस में उपरोक्त कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है। विरष्ठ प्रबन्धक (सिविल)

CyberMedia

CYBER MEDIA (INDIA) LIMITED

Regd. Office: D-74, Panchsheel Enclave, New Delhi-110017. Tel.: 011-26491320

Corp. Office: Cyber House, B-35, Sector-32, Gurugram-122001, Harvana.

CIN: L92114DL1982PLC014334 Tel.: 0124-4822 222

Email: investorcare@cybermedia.co.in, Website: www.cybermedia.co.in

Notice regarding postponement of the Board Meeting

With reference to Notice dated May 08, 2021, regarding the date of the Board Meeting

the Company which was scheduled to be held on May 18, 2021, inter alia, to consider and

approve Audited Financial Results of the Company for the quarter and year ended March

31, 2021, this is to inform that the said meeting has been postponed, because there is a

complete lock down in Delhi NCR and some of the accounts staff's families are suffering

from Covid-19 pandemic. The new date of the meeting of the Board of Directors for the

aforesaid purpose shall be intimated in due course in accordance with Regulation 29 of

The said information is also available on the Company's website at www.cybermedia.co.in

and the websites of stock exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

क्योंकि महामारी की वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा मामलों के बीच असम में अब तक 3.15 परेश बरुआ ने अपने बयान में कहा, लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं जबिक

स्पेस इक्युबैट्रिक्स टैक्नालॉजीस लि0 CIN: L17100UP2016PLC084473 पंजी0 कार्यालयः पवन पुरी, मुरादनगर, गाजियाबाद (७०५०) - 201206 वेबसाइटः www.spaceincubatrics.com एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि यूपीसीडा के औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद साइट-4 ई-मेल: spaceincubatrics@gmail.com (1707.18 एकड) गाजियाबाद का ड्रोन सर्वे का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। उक्त संपर्क सूत्र:- 01232 - 261288 औद्योगिक क्षेत्र के ड्रोन सर्वे के स्कोप आफ वर्क के अनुसार बिल ऑफ क्वांटिटी दिनांक

चित किया जाता है कि सेबी (सूचीबद्ध प्रतिज्ञापत्र एवं प्रकटीकरण आवश्यकेताए विनियम-2015 के विनियम 47 अनुपालन में कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही एवं वार्षिक अवधि के कम्पनी वित्तीय परिणामों एवं अन्य विषयों विचार करने व स्वीकृत करने मंगलवार, 25 मई 2021 को के पंजीकृत कार्यालय पर उक्त सूचना व वित्तीय कम्पनी की वेबसाइटः www.spaceincubatrics.com 4 स्टाक एक्सचेंज BSE की वैबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध

बोर्ड के आदेशानुसार कृते स्पेस इंक्युबैट्रिक्स टैक्नालॉजीस लि0 हरताहर (योगेश कुमार गर्ग) कंपनी सचिव स्थानः मुरादनगर दिनांकः 15.05.2021

सूरज इण्डस्ट्रीज लि. CIN: L26943HP1992PLC016791

मेल- secretarial@surajindustries.org वेगसाइट-www.surajindustries.org पंजी. कार्या: प्लॉट नं. २, फेंज ३, संसारपुर दैरेस, जिला. कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश-173212 **कॉरपोरेंट कार्यालयः** एफ–32 / 3, प्रथम तल, ओखला इंडरिंट्यल एरिया, फेज-2, नई दिल्ली-110020 संपर्क सूत्र: 01970-256414

एतद द्वारा सुचित किया जाता है कि सेबी (सचीयन दायित्व एवं उदघाटन अपेक्षा) विनियम, 2015 के विनियम 29 के साथ पठित विनियम 33 और 47 के अनुपालन में मैसर्स सुरज इण्डस्टीज लि. के निदेशक मण्डल की बैठक शुक्रवार, 21 मई, 2021 को दोपहर 01.00 वर्जे एफ-32/3, प्रथम तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-॥, नई दिल्ली -110020 में आयोजित की जाएगी जिसमें 31 मार्च, 2021 को कम्पनी के समाप्त वर्ष के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किया जायेगा। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी कम्पनी की वेबसाइट www.surajindustries.org अधावा स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट www.bseindia.com पर जाएं।

कृते सूरज इण्डस्ट्रीज लि. भानुमति रामाचन्द्रण स्थान: नई दिल्ली

(कम्पनी सचिव)

तिथि: 14.05.2021

नवी मुंबई महानगरपालिका

कामाचे नाव :- Expression of Interest for Purchase of Covid-19 Vaccine.

कामाची अंदाजीत किंमत :- Rs 40 कोटी

Expression of Interest ची विस्तृत माहिती नवी मुंबई महानगरपालिकेचे संकेतस्थळ https://nmmc.etenders.in यासंकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे.संबंधित निविदाकारांनी याची नोंद घ्यावी. ऑनलाईन Expression of Interest सादर करावयाची अंतिम दिनांक 22.05.2021

(दु.01.00 वाजेपर्यंत)

जाक्र-नम्मपा/जसं/जाहिरात/158/2021

जान जा चकी है। कार्यालय वरिष्ठ पूबन्धक (सिविल), निर्माण खण्ड-प्रथम एल्गार परिषद मामले उ०प्र० राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण में आरोपियों को रिहा द्वितीय तल, जी०डी०ए० बिल्डिंग प्राइवेट वस स्टैण्ड कम्पाउण्ड, गाजियाबाद

करने की मांग

मुंबई, 15 मई (भाषा)।

एल्गार परिषद और माओवादियों के बीच कथित जुडाव के मामले में आरोपियों के परिजनों और दोस्तों ने कोविड-19 महमारी के मद्देनजर उन्हें जेल से रिहा किए जाने की मांग की है। आरोपियों के परिजनों का कहना है कि संक्रमण से पीडितों के इलाज के लिए जेलों में पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। ये सभी आरोपी मुंबई और आसपास की जेलों में बंद हैं। मामले में हनी बाबू, स्टेन स्वामी और सुधा भारद्वाज समेत 16 आरोपियों के परिजनों और दोस्तों ने डिजिटल तरीके से आयोजित संवाददाता सम्मेलन में यह मांग रखी। मामले में आरोपी पुरुषों को नवी मंबई की तलोजा जेल में रखा गया है जबकि आरोपी महिलाएं

मध्य मुंबई की भायखला जेल में हैं।

Place: Gurugram Company Secretary M. No. F8264 Date: May 15, 2021

आरोग्य विभाग

Expression of Interest- Global Invite EOI सूचना क्र. - नम्मपा/आरोग्य/ 116/2021

वैदयकिय आरोग्य अधिकारी

नवी मुंबई महानगरपालिका

By Order of the Board

Anoop Singh

💎 सिबली इंडस्ट्रीज लिमिटेड CIN - L17111UP1988PLC009594 पंजी० कार्यालयः पवन पुरी, मुरादनगर, गाजियाबाद (उ०प्र०) - 201206 Website: www.sybly.com Email: sybly@rediffmail.com संपर्क सूत्र:- 01232 - 261521 सचित किया जाता है कि सेबी (सूचीबद्ध

प्रतिज्ञापत्र एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम-2015 के विनियम 47 के अनुपालन में कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही एवं वार्षिक अवधि के कम्पनी के वित्तीय परिणामों एवं अन्य विषयों पर विचार करने व स्वीकृत करने हेत् मंगलवार, 25 मई 2021 को कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर होगी। उक्त सूचना व वित्तीय परिणाम कम्पनी की वेबसाइटः www.sybly.com व स्टाक एक्सचेंज BSE की वैबसाइटः www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होगी। बोर्ड के आदेशानुसार कृते सिबली इंडस्ट्रीज लिमिटेड,

(सागर अग्रवाल) दिनांकः 15.05.2021 कम्पनी सचिव

www.readwhere.com

Jadunath Mohanty, Unit (7017-EME-Bn) C/o.99 APO, name from PRITHI LATA 01.03.2000), vide affidavit dated-14/05/2021,before Singh, Regd.No.-803, Delhi.

Kumar and Saroj Bala, which

may be amended accordingly

KUMAR MOHANTY, R/o Village-Sankhua, P.O-Khantapara, Tehsil-Soro, Distt.-Balasore. Odisha-756043, have corrected/changed my date of birth from 10.06.1979 to 16.04.1978 vide affidavit dated-

0070740760-1

0070740737-1 PUBLIC NOTICE

DASS and Smt. SUNITA W/o SH. RAMESH

Dwarka, New Delhi- 110075

copy, it is not possible to verify Express (P) Limited cannot be neld responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals or Publications. We therefore make necessary inquiries before sending any monies or

entering into any agreements acting on an advertisement in any manner whatsoever.

- 150001